



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

3 कार्तिक 1938 (श0)  
(सं0 पटना 936) पटना, मंगलवार, 25 अक्टूबर 2016

---

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना  
10 जून 2016

सं0 8/आ0 (राज0नि0)-01-28/2016-2829—श्री विनय कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, बहादुरगंज, (किशनगंज) को बिहार उत्पाद अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2016 के तहत शराब पीते हुए पकड़े जाने एवं न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) (क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिए जाने की तिथि के प्रभाव से निलंबित किया गया था, न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर विभाग में दिनांक 26.05.2016 को योगदान करने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-2828 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया है। उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 2009 के नियम-9 (3) (II) के आलोक में नियम-9 (1) (क) (ग) के तहत पुनः निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अभय राज,  
सरकार के विशेष सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 936-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>